



हफ्तेभर में पुलिस ने खोली लाखों की चोरी

- पनकी थाना क्षेत्र में 07/08 की रात को हुई थी चोरी
- घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों का माल किया था पार
- वारदात में शामिल महिला समेत चार अभियुक्त चढ़े हथ्थे
- पुलिस ने चोरों के पास से लाखों का माल किया बरामद
- रात एक बजे जब लोग गहरी नींद में होते तब करते थे घटना
- चोरी के माल को बेचने का जिम्मा महिला के पास था

कानपुरा पनकी थाना क्षेत्र में 8 तारीख को हुई चोरी की घटना को पुलिस ने हफ्ते भर में खोल दिया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 4 अभियुक्तों को दबोचकर माल भी बरामद कर लिया। अभियुक्त तब हथ्थे चढ़ गए जब वो चोरी के माल को बेचने की फिराक में थे।

घटनाक्रम के मुताबिक पनकी बी ब्लॉक में अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर ज्वैलरी व नगदी चोरी कर ली थी। उस वक्त परिवार किदवई नगर में जागरण कार्यक्रम में गया था। इस सम्बन्ध में वादी श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय पत्नी स्व० रामसेवक पाण्डेय ने थाना पनकी कानपुर नगर ने तहरीर दी थी। पुलिस ने हुई लाखों की चोरी का मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी। बीती रात पुलिस को चोरों के सम्बन्ध में सटीक सूचना मिली तो पुलिस ने अपना जाल बिछाया जिसमें तीन अभियुक्त अजय प्रजापति, राजीव कुमार सिंह उर्फ राजू और राहुल बताए। सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने माल के बारे में जानकारी देते हुए वारदात कबुल कर ली। उन्होंने बताया कि हम अनमोल सिंह नि० डूडा कालोनी रतनपुर के साथ मिलकर वीरेन्द्र स्वरूप स्कूल के पीछे एक बन्द मकान में ताला तोड़कर चोरी किये थे। अनमोल की मां मंजू देवी भी इसमें साथ देती है। इस पर पुलिस ने मंजू को भी नारायणा तिराहा से चोरी की ज्वैलरी बेचने ले जाते समय गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे करते थे वारदात

अभियुक्तों द्वारा रात्रि में अपनी वाइको से घूम-घूम कर ताला वन्द मकानों को देखते हैं और 01 बजे के आसपास जब उस मकान के आसपास लोग गहरी नींद में सोने की स्थिति में होते हैं तो ताला तोड़कर मकान में घुसकर चोरी करते हैं। ताला तोड़ने का काम अनमोल द्वारा किया जाता है तथा ज्वैलरी बेचने का काम अमित द्वारा किया जाता है अनमोल के सारे कामों की जानकारी माँ श्रीमती मंजू शर्मा को रहती है कुछ घटनाओं के माल माँ के द्वारा भी बेचा जाता है। अभियुक्त गण कई घटना करने के वाद भी जेल नहीं गये हैं क्यों कि अभियुक्त अजय प्रजापति पनकी मन्दिर व आस-पास में होने वाले भण्डारे का आदि में वढ –चढ के हिस्सा लेता है इसी प्रकार अभियुक्त राहुल गुप्ता पनकी रेलवे स्टेशन के सामने चाट समोसे की ठेला लगाता है और अपने को धार्मिक कामों में व्यस्त होना दिखाता था। राजीव कुमार प्राइवेट कम्पनी में काम करता है। इसलिए किसी को इन पर कभी शक नहीं हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान

- (1) अजय प्रजापति नि० म०न० पनकी कटरा थाना पनकी
- (2) राजीव कुमार सिंह उर्फ राजू नि०केडीए मार्केट पनकी धाम थाना पनकी मूलपता जनपद सिवान बिहार
- (3) राहुल गुप्ता नि०केडीए मार्केट पनकी धाम थाना पनकी
- (4) श्रीमती मंजू देवी पत्नी गिरजेश नि० डूडा कालोनी रतनपुर थाना पनकी

इसकी चल रही तलाश

1-अनमोल सिंह नि० डूडा कालोनी रतनपुर थाना पनकी

बरामदगी

अभियुक्तों के पास से हुई बरामदगी में 03अंगूठी पीली धातु, 01चैन पीली धातु, 01 लाकेट पीली धातु, 01 गिलास सफेद धातु, 01 दीपक सफेद धातु, 01 जोड़ी पायल सफेद धातु, 31700/- रू० नगद व घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद हुईं।

कार्रवाई करने वाली टीम

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली टीम में 30नि० विपिन कुमार बघेल, 30नि० अभिषेक चन्दन, हे०का० जयसिंह, हे०का० विमलेश कुमार, का० रवि कुमार शामिल रहे।